

सामयिक मूल्यांकन कसौटी

कक्षा : 6

हिन्दी

सितम्बर, 2021

समय : 1 घंटा

अंक : 25

H613.02: 'कौन' कारक के रूपों वाले प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप से देते हैं।

प्रश्न : 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए।


(05)

- (1) हमें पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ?
- (2) हमारे जीवन को 'सुख-दुःख की कहानी' क्यों कहा गया है ?
- (3) नन्ही की जगह आप होते तो बिच्छू से कैसा बर्ताव करते?
- (4) नन्ही और बिच्छू की कहानी से आपने क्या सीखा ?
- (5) 'दयालु शिकारी' कहानी से क्या सीख मिलती है ?

H610: चित्र के आधार पर कहानी का लेखन करते हैं।

प्रश्न : 2 निम्नलिखित चित्र के आधार पर कहानी लिखिए।

(05)



H617.02: शब्दों और अंकों में 51 से 100 तक की गिनती का लेखन कर सकते हैं ।

प्रश्न : 3 निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए ।

(05)

- (1) ५५ (2) ७० (3) ६६ (4) ८९ (5) ९९

H615: विरामचिह्नों का योग्य स्थान पर प्रयोग करते हैं ।

प्रश्न : 4 निम्नलिखित वाक्यों को योग्य विरामचिह्न लगाकर फिर-से लिखिए ।

(05)

- (1) तुम क्या करते हो
(2) अरे क्या हो गया
(3) माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है
(4) भैया मुझे जाने दीजिए
(5) सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है

H6.06: छपी हुई सामग्री पढ़कर समझते हैं ।

प्रश्न : 5 निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

(05)

योग एक कला है, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है । योग आवश्यक है, क्योंकि यह हमें फिट रखता है, तनाव को कम करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखता है । मनुष्य का स्वस्थ मन ही अच्छी तरह से ध्यान केन्द्रित करने में सहायता कर सकता है । हम योग का अभ्यास करके आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं । जाहिर है कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक काम कर सकता है । नियमित योग अभ्यास करने से हमारा शरीर सक्रिय रहता है, आलसीपन दूर होता है, शरीर में रक्त प्रभाव बढ़ता है, ध्यान केन्द्रित करने की शक्ति बढ़ती है और मन प्रफुल्लित रहता है ।

प्रश्न :

- (1) शरीर, मन और आत्मा को एक साथ कौन जोड़ता है ?
(2) नियमित योग अभ्यास करने से क्या फायदा होता है ?
(3) परिच्छेद में 'सहायता' शब्द का समानार्थी शब्द कौन-सा है ?
(4) परिच्छेद में से 'आलसी' शब्द का विलोम शब्द ढूँढिए ।
(5) इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए ।

.....